

Government of India
Ministry of Finance
(Department of Revenue)

New Delhi the 30th Jan, 1995

NOTIFICATION

S.O. (E). In exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with clause (b) of the Explanation to section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government on the recommendation of the National Committee, hereby approves the institution specified in column 1 of the Table below and specifies the eligible projects and schemes and the estimated cost thereof as mentioned in column (2) of the Table below and specifies in the column (3) of the said Table, the maximum amount of such cost which may be allowed as deduction under said section 35AC.

TABLE

Name of the Institution	Projects or Schemes	Maximum amount of cost to be allowed as deduction under section 35AC
(1)	(2)	(3)
Sri Satya Sai Medical Trust, Prasanthi Nilayam District Anantapur, Andhra Pradesh. PIN - 515 134.	(a) Maintenance and running of cardiology Department; (b) Repairs/renewals in the hospital as a whole; (c) Phase 2nd & 3rd of ENT Department and its maintenance.	Rs. 1527 lakhs plus the amount of donations received in respect of projects and schemes already approved under Notification S.O.521(E) dated 14th July, 1994 and S.O.614(E) dated 14th July, 1994 and 23rd August, 1994 to the extent the amount collected by way of donations could not be utilised for the projects or schemes mentioned in the aforesaid notifications.

This notification shall remain in force for a period of three assessment years, namely, 1995-96, 1996-97 and 1997-98.

(V.K. SEHGAL)

Deputy Secretary to the Government of India

No. 9695
F.No. NC-132/94

भारत के राजपत्र, असाधारण, प्राप्ति-2, संख्या ३, उपर्युक्त ३३३,
तारीख ३०-१-१९९५ में प्रकाशित-

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
राष्ट्रीय विभाग।

बहु दिवाली, तारीख ३०-१-१९९५

अधिसूचना

फ्रॉज्डो १३। : फ्रेंड्रीय सरकार, बाय-फर अधिकारियम्, १९६१-१९६१ फा ४३।
भी बारा ३५ कम के स्पष्टीकृत के स्पष्टीकृत के साथ पीछे उपचारा ३३। इसका
प्रदत्त शिक्षण विभाग का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय विभाग के विकासित पर, बीचे
के सारणी के स्तंश ११ में विकिर्दिष्ट संस्था को अब्दीन छरती है और बीचे
की सारणी के स्तंश १२। में व्यातिलिखित पात्र परियोजनाओं और स्फीमों
तथा उनकी प्रारंभिक लाभत विकिर्दिष्ट छरती है और उसका सारणी के स्तंश १३।
में ऐसी लाभत की वह अधिकतम रकम, जो उसका बारा ३५ कम के अधीन छटौती
के लिए में अब्दीन की जा सकती, विकिर्दिष्ट छरती है।

सारणी

संस्था का नाम

परियोजना या योजना

बारा ३५ कम के अधीन छटौती
के लिए में अब्दीन की जा सकती
लाभत की अधिकतम रकम

११।

१२।

१३।

श्री सत्यसांई मैडीफ्लू
द्रव्य, प्रशांति बिल्यम्
जिता अब्दीनपुर
अंग्रेजी प्रदेश
पिन-५१५१३४

१। फ्रार्डियोलाक्षी
विभाग का
अब्दीन और
उसे वलाबा;
२। पूरे अस्पताल की
मरम्मत/उपका
बालीकरण;

१५२७ लाख रुपए तथा अधिसूचना
संफ्रॉज्डो २५। ३।, तारीख
१४ अक्टूबर, १९९४ और फ्रॉज्डो
६। ३। तारीख २३ अक्टूबर, १९९४
के अधीन पहले ही अब्दीन
परियोजनाओं और स्फीमों की
बाबत प्राप्त किए गए उस सीमा

मा. फाल, बांके, मता की संदाच की रकम किस तरफ

इस एवं टी। विप्राय संदाच के द्व्य में संगृहीत रक्षा का क्षेत्र दूसरा भाँति

In the second tier of the expenditure, the amount of the Central Government's contribution towards the Central Budgetary Allocation for the collection of the Central Excise duty, which is to be distributed among the states in accordance with the principle of "एक जना सभी" is estimated to be Rs. 1000 crores.

यह उधिकारित विधायिका वर्षों प्रथम् 1995-96, 1996-97 और

1997-98 की उपचिन्ह के त्रिए प्रवृत्ति रहेगी।

Amount of
to be allocated
to each state
रु. 1000 करोड़

एवी० को०-सहस्रा
उप सचिव, मार्ग सरकार

ए० ३८१५

का०स० ए०स०-१३२/१४